



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, नवम्बर 6—नवम्बर 12, 2011, शनिवार/कार्तिक 15—कार्तिक 21, 1933  
No. 22] NEW DELHI, NOVEMBER 6—NOVEMBER 12, 2011, SATURDAY/KARTIKA 15—KARTIKA 21, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence  
( रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग )

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2011

**का.नि.आ. 68.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' तथा समूह 'घ' (अग्नि शमन सेवा) पद भर्ती नियम, 1998 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, में समूह 'ग' (अग्नि शमन सेवा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (अग्नि शमन सेवा) पद भर्ती नियम, 2011 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **आरम्भिक गठन.**—रक्षा मंत्रालय और विकास संगठन में निम्नलिखित पदधारियों को इन नियमों के आरम्भ पर निम्नलिखित रूप में पुनः पदाभिहित किया जाएगा:

- |       |                                |                           |
|-------|--------------------------------|---------------------------|
| (i)   | (क) फायर मास्टर .....          | स्टेशन अधिकारी            |
|       | (ख) अग्नि शमन पर्यवेक्षक ..... |                           |
| (ii)  | (क) ज्येष्ठ फायरमैन 'ख' .....  | लीडिंग फायरमैन<br>फायरमैन |
|       | (ख) ज्येष्ठ फायरमैन 'क' .....  |                           |
| (iii) | फायरमैन .....                  |                           |

3. **पदों का नाम, वर्गीकरण और वेतन बैंड, वेतनमान और ग्रेड वेतन.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और वेतनमान और ग्रेड वेतन वह होंगे जो उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—(i) उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

(ii) प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाओं और स्थापनाओं को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार विभिन्न विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूहों में समुहित किया गया है। प्रत्येक ऐसे समूह को पृथक और स्वतंत्र यूनिट समझा जाएगा और फायरमैन और लीडिंग फायरमैन के पदों के साथ इन नियमों में सम्मिलित अगले उच्चतर पद पर पात्र कर्मचारियों की प्रोन्नति की जाएगी। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पश्चात्, समूह 'घ' के पदों को समाप्त कर दिया गया है अतः विभागीय प्रोन्नति समिति-III का गठन नहीं किया जाएगा।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपबंध करना, अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टेशन अधिकारी	60* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर औद्योगिक अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
(7)			(8)	(9)	
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

25 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा, फायर इंजन चालक 'ग' के पद से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा (एलडीसीई) जिनके न हो सकने पर फायर इंजन चालक 'ग' के पद पर जिन्होंने 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ।

(11)

**प्रोन्नति :**

(1) काडर/विभाग में, वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु. में, ऐसा लीडिंग फायरमैन, जिसने दस वर्ष नियमित सेवा (तत्कालीन फायरमैन 'क' और फायरमैन 'ख' के रूप में दस वर्ष की सम्मिलित सेवा), की है और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं :—

(i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र (10+2 पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण) या सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ।

(ii) अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र द्वारा संचालित ज्येष्ठ अग्नि शमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम या गृह मंत्रालय द्वारा संचालित उप अधिकारी पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, या किसी अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थानों से इसके समतुल्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। शारीरिक योग्यता और श्रमसाध्य कर्तव्य का पालन करने का सामर्थ्य हो ।

(2) निम्नलिखित पैरामीटरों में विभागीय प्रोन्नति समिति-II द्वारा संचालित व्यावसायिक परीक्षण अर्हित करने के अध्यक्षीन रहते हुए, काडर/विभाग में, वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु.+ ग्रेड वेतन 2000 रु. में ऐसा लीडिंग फायरमैन, जिसने पंद्रह वर्ष नियमित सेवा की है :—

(क) शारीरिक प्रशिक्षण, स्क्वायर ड्रिल, अग्नि शमन ड्रिल अग्नि शमन/ड्रिल पम्प के प्रचालन को संचालित करने के लिए योग्य होना चाहिए ।

(ख) अपने स्टेशन में लगे हुए अग्नि शमन उपकरणों के उपयोग का प्रदर्शन करने में योग्य होना चाहिए ।

**स्थानान्तरण :-** सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, ऐसे अभ्यर्थियों में से, जो वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2800 रु. में अग्निशमन इंजन चालक 'ग' का पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं :—

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र (10+2 पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण)।

(ii) अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र द्वारा संचालित ज्येष्ठ अग्नि शमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम या गृह मंत्रालय द्वारा संचालित उप अधिकारी पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, या किसी अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थानों से इसके समतुल्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। शारीरिक योग्यता और श्रमसाध्य कर्तव्यों का पालन करने का सामर्थ्य हो ।

**प्रोन्नति:** सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, ऐसे अभ्यर्थियों में से, जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए और ग्रेड वेतन 2400 रुपए में अग्नि शमन इंजन चालक 'ख' के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं :—

(i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (10+2 पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण) ।

(ii) अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र द्वारा संचालित ज्येष्ठ अग्नि शमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम या गृह मंत्रालय द्वारा संचालित उप अधिकारी कम या राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, या किसी अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थानों से इसके समतुल्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हों । शारीरिक योग्यता और

(11)

श्रमसाध्य कर्तव्यों का पालन करने का सामर्थ्य हो ।

**टिप्पण 1 :** अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की अपनी-अपनी विभागीय प्रोन्नति समिति-II में तत्कालीन ज्येष्ठ फायरमैन 'क' और फायरमैन 'ख' पदों पर की गई नियमित सेवा भी गणना में ली जाएगी ।

**टिप्पण 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

### विभागीय प्रोन्नति समिति-II

लागू नहीं होता ।

1. संबंधित विकेंद्रीकृत विभागीय समिति-II समूह को संचालित करने के लिए नामनिर्दिष्ट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला/स्थापन का निदेशक/प्रधान —अध्यक्ष
2. संबंधित विकेंद्रीकृत विभागीय समिति-II समूह में सम्मिलित किसी प्रयोगशाला/स्थापन का ऐसा अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-2 या उसके समतुल्य रैंक से नीचे का न हो —सदस्य
3. एक ऐसा अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-2 या वैज्ञानिक 'ग' या उसके समतुल्य रैंक से नीचे का न हो और वह उस विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में सम्मिलित किसी प्रयोगशाला/स्थापन का न हो —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लीडिंग	140* (2011)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-1,	चयन	लागू नहीं होता
फायरमैन	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित गैर औद्योगिक अननुसचिवीय	5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु.		

(7)

(8)

(9)

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

(10)

75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

25 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, प्रोन्नति द्वारा

(11)

**प्रोन्नति :**

(i) चयन के आधार पर, वेतन बैंड-1,5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में अपनी-अपनी प्रयोगशाला या स्थापन का ऐसा फायरमैन, जिसने तीन वर्ष नियमित सेवा की है ।

(ii) निम्नलिखित काडरों में से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से :-

(क) काडर/विभाग में, वेतन बैंड-1,5200-20200 रु.+ ग्रेड वेतन 1900 रु. में, ऐसा अग्नि शमन इंजन चालक 'क', जिसने तीन वर्ष नियमित सेवा की है । उन्हें अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र द्वारा संचालित अग्निशमन से संबंधित साधारण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा या गृह मंत्रालय द्वारा संचालित उप अधिकारी पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर या किसी अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थानों से इसके समतुल्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। शारीरिक योग्यता और श्रमसाध्य कर्तव्यों का पालन करने का सामर्थ्य हो ।

(ख) जिन्होंने वेतन बैंड-1,5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में, काडर/विभाग और अपनी-अपनी प्रयोगशाला या स्थापन की परिचर प्रयोगशाला सेवाओं में कार्यालय परिचर, प्रसाधन परिचर, उद्यान परिचर, सुरक्षा परिचर के पद पर छह वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (10+2 पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण) हो। उन्हें अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र द्वारा संचालित अग्निशमन से संबंधित साधारण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा या गृह मंत्रालय द्वारा संचालित उप-अधिकारी पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर या किसी अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थानों से इसके समतुल्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो । शारीरिक योग्यता और श्रमसाध्य कर्तव्यों का पालन करने का सामर्थ्य हो ।

**टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है ।

(12)

**विभागीय प्रोन्नति समिति-II (पुष्टि के लिए) :-**

1. संबंधित विकेंद्रीकृत विभागीय समिति-II समूह को संचालित करने के लिए नामनिर्दिष्ट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला/स्थापन का निदेशक/प्रधान —अध्यक्ष
2. संबंधित विकेंद्रीकृत विभागीय समिति-II समूह में सम्मिलित किसी प्रयोगशाला/स्थापन का ऐसा अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-2 या उसके समतुल्य रैंक से नीचे का न हो —सदस्य
3. एक ऐसा अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-2 या वैज्ञानिक 'ग' या उसके समतुल्य रैंक से नीचे का न हो और वह उस विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में सम्मिलित किसी प्रयोगशाला/स्थापन का न हो —सदस्य

(13)

लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फायरमैन,	262* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर औद्योगिक, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच। <b>टिप्पण 1 :</b> केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों, के अभ्यर्थियों की दशा में, शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है। <b>टिप्पण 2 :</b> अभ्यर्थियों की दशा में, आयु- सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख, पदों के विज्ञापन में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।
(7)		(8)		(9)	
(1) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा मान्यताप्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (10+2 पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण)। (2) शारीरिक योग्यता और श्रमसाध्य कर्तव्यों का पालन करने का सामर्थ्य हो।		लागू नहीं होता		दो वर्ष <b>टिप्पण:</b> उन्हें अपनी पुष्टीकरण से पहले अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र (सीफीज) द्वारा संचालित अग्निशमन साधारण पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूरा करना होगा	
(10)		(11)		(12)	
सीधी भर्ती द्वारा		लागू नहीं होता		(13)	
<b>विभागीय प्रोन्नति समिति-II (पुष्टि के लिए) :—</b>				लागू नहीं होता।	
1. संबंधित विकेंद्रीकृत विभागीय समिति-II समूह को संचालित करने के लिए नामनिर्दिष्ट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला/स्थापन का निदेशक/प्रधान		—अध्यक्ष			
2. संबंधित विकेंद्रीकृत विभागीय समिति-II समूह में सम्मिलित किसी प्रयोगशाला/स्थापन का ऐसा अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-2 या उसके समतुल्य रैंक से नीचे का न हो		—सदस्य			
3. एक ऐसा अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-1 या वैज्ञानिक 'ग' या उसके समतुल्य रैंक से नीचे का न हो और वह उस विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में सम्मिलित किसी प्रयोगशाला/ स्थापन का न हो		—सदस्य			

[ फा. सं. डीएचआरडी/76257/आरआर/अ.श./सी/पी/01 ]

एस. के. देब, अवर सचिव

**पाद टिप्पण :**—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 4 में सं. का.नि.आ. 383 तारीख 16 नवम्बर, 1974 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। इसका संशोधन सं. का.नि.आ. 236 तारीख 12 जुलाई, 1975, सं. का.नि.आ. 19 तारीख 31 जनवरी, 1976, सं. का.नि.आ. 191 तारीख 20 जुलाई, 1976। इसका अधिक्रमण करते हुए सं. का.नि.आ. 82 तारीख 23 फरवरी, 1980। इसका संशोधन करते हुए सं. का.नि.आ. 200 तारीख 20 जुलाई, 1981, सं. का.नि.आ. 102 तारीख 16 अप्रैल, 1982, सं. का.नि.आ. 361 तारीख 1 दिसम्बर, 1989 (सहायक अग्नि अधिकारी द्वारा किया गया)। इसका संशोधन सं. का.नि.आ. 290 तारीख 28 अक्टूबर, 1992 द्वारा किया गया। इसका अधिक्रमण सं. का.नि.आ. 14(अ), तारीख 29 मई, 1998 द्वारा किया गया।

**MINISTRY OF DEFENCE****(Department of Defence Research and Development)**

New Delhi, the 28th October, 2011

**S.R.O. 68.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' and Group 'D' (Fire Services) Posts Recruitment Rules, 1998 as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the Group 'C' (Fire Service) posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence namely :—

**1. Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation Group 'C' (Fire Service) posts Recruitment Rules, 2011.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Initial Constitution .**—The incumbents of the following posts in the Defence Research and Development Organisation at the commencement of these rules shall be re-designated as indicated below :—

(i)	(a)	Fire Master .....	Station Officer
	(b)	Fire Supervisor .....	
(ii)	(a)	Senior Fireman 'B' .....	Leading Fireman
	(b)	Senior Fireman 'A' .....	
(iii)		Fireman .....	Fireman

**3. Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay, Pay Scale.**—The number of said post, its classification and Pay Band and Grade Pay, Scale of Pay attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed herewith.

**4. Method of recruitment, age limit and other qualifications**—(i) The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to the said post } shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

(ii) For the purpose of promotion, the Laboratories and Establishments of Defence Research and Development Organisation have been grouped into various Departmental Promotion Committee II Groups, as per the orders issued by the Government from time to time. Each such Group shall be considered as a separate and independent unit and promotion of eligible employees to the next higher post included in these rules along with the posts of Fireman and Leading Fireman. After the implementation of 6th CPC recommendations Group 'D' posts have been abolished and hence there shall not be Departmental Promotion Committee-III constituted.

**5. Disqualifications.** - No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax .**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

**7. Saving**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidate belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.



**SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay /Pay scale	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Section Officer	80* (2011) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Industrial Non-Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200–20200+ Grade pay Rs. 2800	Selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees		Period of probation, if any
(7)			(8)		(9)
Not applicable			Not applicable		Not applicable
<b>Method of recruitment :</b> whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made		
(10)			(11)		
75 percent by Promotion, 25 percent by transfer from the post of Fire Engine Driver 'C' through Limited Department Limited Competitive Examinations (LDCE) failing which by promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) from the post of Fire Engine Driver 'B' with five years regular service.			<b>Promotion :</b> (1) Leading Fireman with ten years regular service (combined service of ten years as erstwhile Fireman 'A' and Fireman 'B') rendered in Pay Band-1 (Rs 5200-20200)+ Grade Pay of Rs. 2000 in the Cadre/Department and possessing the following qualifications:— (i) Secondary School Certificate (10th Standard pass under the 10+2 system) from recognised school by Central or State Government or through Limited Departmental Competitive Examination. (ii) Pass in the Senior Fire Supervisor course conducted by Centre for fire, Explosives and Environment safety or Sub-Officer's course conducted by Ministry of Home Affairs or from National Fire Services College, Nagpur or equivalent from other reputed institutions. Physical fitness and capability to perform strenuous duties. (2) Leading Fireman with fifteen years of regular service rendered in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200)+Grade Pay of Rs. 2000 in the Cadre/Department subject to qualify the Trade Test conducted by DPC-II in the following parameters:— (a) Should be able to conduct physical training, square drills, fire fighting drills, fire fighting/driller pumps operation.		



(11)

(b) Should be able to demonstrate on the use of fire fighting equipment held in their station.

**Transfer** :— Through Limited Departmental Competitive Examination from candidates holding posts of Fire Engine Driver 'C' in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2800 and possessing the following qualifications :

(i) Secondary School Certificate (10th Standard pass under the 10+2 system) from recognized school by Central or State Government.

(ii) Pass in the Senior Fire Supervisor course conducted by Centre for Fire, Explosives and Environment Safety or Sub - Officer's course conducted by Ministry of Home Affairs or from National Fire Services College, Nagpur or equivalent from other reputed institutions. Physical fitness and capability to perform strenuous duties.

**Promotion** :— Through Limited Departmental Competitive Examination from candidates with five years regular service in the Post of Fire Engine Driver 'B' in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2400 and possessing the following qualifications :

(i) Secondary School Certificate (10th Standard pass under the 10+2 system) from recognized school by Central or State Government.

(ii) Pass in the Senior Fire Supervisor course conducted by Centre for Fire, Explosive and Environment Safty or Sub-Officer's course conducted by Ministry of Home Affairs or from National Fire Services College, Nagpur or equivalent from other reputed institutions. Physical fitness and capability to perform strenuous duties.

**Note 1** : For the purpose of counting of qualifying service, the regular service rendered in the erstwhile Senior Fireman 'A' and Senior Fireman 'B' posts in the respective Departmental Promotion Committee II Group of Defence Research and Development Organisation shall also be taken into account.

**Note 2** : Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less have successfully completed their probation period for promotion the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

**Departmental Promotion Committee-II**

Not applicable

1. Director/Head of the Defence Research and Development Organisation Laboratory/Establishment nominated for conducting the respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group.

—Chairman

(12)

2. An Officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade-II or equivalent from the participating Laboratories/Establishment in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group —Member
3. An Officer of the rank now below the rank of Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' or equivalent who does not belong to any of the constituent Establishment/Laboratory of the Departmental Promotion Committee-II Group —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Leading Fireman	116* (2011) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Industrial Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200–20200+ Grade Pay of Rs. 2000	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
(i) By Promotion 75 per cent (ii) By promotions on the basis of Limited Departmental Competitive Examination 25 per cent	<b>Promotion :—</b> (i) On the basis of Selection Fireman with three years regular service rendered in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200)+Grade Pay of Rs. 1900 in the respective Laboratory or Establishment. (ii) Through Limited Departmental Competitive Examination from the following cadres :— (a) Fire Engine Driver 'A' with three years regular service rendered in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200)+Grade Pay of Rs. 1900 in the Cadre/Department. They will have to complete the General Course in Fire Fighting conducted by Centre for Fire Explosives and Environment Safety successfully or Sub-Officer's course conducted by Ministry of Home Affairs or from National Fire Services College, Nagpur or equivalent from other reputed institutions. Physical fitness and capability to perform strenuous duties. (b) With six years regular service rendered in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200)+ Grade Pay of Rs. 1800 in the post Office Attendant, Cosmetic Attendant, Garden Attendant, Security Attendant in the Cadre/Department and Attendant Lab. Services in the respective Laboratory or Establishment and possessing Secondary School Certificate (10th standard pass under the 10+2 system) recognized by Central or State Government. They will have to complete the General Course in Fire Fighting conducted by Centre For Fire Explosives and Environment Safety successfully or Sub-Officer's course conducted by Ministry of Home Affairs or from National Fire Services College,

(11)

Nagpur or equivalent from other reputed institutions. Physical fitness and capability to perform strenuous duties.

**Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, have successfully completed their probation period for promotion the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying service.

(12)

(13)

**Departmental Promotion Committee-II**

Not applicable

1. Director/Head of the Defence Research and Development Organisation Laboratory/Establishment nominated for conducting the respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group —Chairman
2. An Officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade-II or equivalent from the participating Laboratories/Establishment in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group —Member
3. An Officer of the rank now below the rank of Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' or equivalent who does not belong to any of the constituent Establishment/Laboratory of the Departmental Promotion Committee-II Group —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fireman	116* (2011) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Industrial, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200–20200+ Grade Pay of Rs. 1900.	Not applicable	Between 18 and 27 years. <b>Note 1.</b> (Relaxable for Government servants up to forty years in the case of general candidates and up to forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note 2 :</b> —The crucial date for determination of the age limit in the case of candidates shall be the last date of receipt of application form as specified in the advertisement of the posts.

(7)	(8)	(9)
(1) Secondary School Certificate (10th Standard pass under 10+2 system) recognised by Central/ State Government.	Not applicable.	Two years
(2) Physical fitness and capability to perform strenuous duties.		<b>Note</b> :-They will have to complete the General Course in Fire Fighting conducted by Centre for Fire, Explosives and Environment Safety successfully before their confirmation.

(10)	(11)
Direct Recruitment	Not applicable

(12)	(13)
<b>Departmental Promotion Committee-II</b> (for confirmation)	Not applicable.
1. Director/Head of the Defence Research and Development Organisation Laboratory/ Establishment nominated for conducting the respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group	—Chairman
2. An Officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade-II or equivalent from the participating Laboratories/Establishment in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group	—Member
3. An Officer of the rank now below the rank of Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' or equivalent who does not belong to any of the constituent Establishment/Laboratory of the Departmental Promotion Committee-II Group	—Member

[F. No. DHRD/76257/RRs/ F.F./C/P/01]

S.K. DEB, Under Secy.

**Foot Note** :—The Principal rules were published in Gazette of India, Part II, Section 4 *vide* No. S.R.O. 383, dated the 16th November 1974. The same was amended *vide* No. S.R.O. 236, dated the 12th Jul. 1975, No. S.R.O. 19, dated the 31st January, 1976, No. S.R.O. 191, dated the 20th July, 1976, Superseded *vide*, No. S.R.O. 82, dated the 23rd, February, 1980. The same was amended *vide* No. S.R.O. 200, dated the 20th July, 1981, No. S.R.O. 102, dated the 16th April, 1982. S.R.O. 361, dated the 1st December, 1989 (Assistant Fire Officer). The same was amended *vide* No. S.R.O. 290, dated the 28th October, 1992 and superseded *vide* No. S.R.O. 14(E), dated the 29th May, 1998.